





JFL/NSE-BSE/2020-21/31

August 17, 2020

BSE Ltd. P.J. Towers, Dalal Street Mumbai - 400001

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra(E) Mumbai - 400051

Symbol: JUBLFOOD **Scrip Code: 533155**

Sub: Publication of information regarding 25th Annual General Meeting of the Company

Dear Sir/ Madam,

We wish to inform you that the 25th Annual General Meeting ("AGM") of Jubilant FoodWorks Limited is scheduled to be held on Tuesday, September 15, 2020 at 11:00 a.m. IST through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM").

The Notice of the 25th AGM of the Company and the Annual Report for the financial year 2019-20 will be sent only in electronic mode to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants and will also be available on the Company's website at www.jubilantfoodworks.com in due course.

Pursuant to Regulation 30, 47 and other applicable regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement published today i.e. August 17, 2020, in Mint (English) and Rashtriya Sahara (Hindi) pursuant to General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs.

This is for your information and records.

Thanking you, For Jubilant FoodWorks Limited

Mona Aggarwal Company Secretary and Compliance Officer

Investor E-mail id: investor@jublfood.com

Encl: A/a

A Jubilant Bhartia Company

5th Floor, Tower-D, Plot No. 5, Logix Techno Park, Sector-127, Noida - 201 304, U.P., India Tel: +91 120 4090500 Fax: +91 120 4090599

Email: contact@jublfood.com

big on e-pharmacies

FROM PAGE 1

government focus on healthcare and schemes like Ayushman Bharat and National Digital Health Mission.

'That is a huge market and opportunity to large retailers like Amazon and Reliance Retail," the executive said.

'Amazon Pharmacy' will offer both over-the-counter and prescription-based drugs, basic health devices and traditional Indian herbal medicines, Amazon said in a statement, without giving a timeline for the launch. Meanwhile, RIL said in its March quarter analyst presentation that "retail will scale up rapidly led by new commerce and pharmacy plat-

E-pharmacies such as Medlife, Netmeds, Temasekbacked PharmEasy and Sequoia Capital-backed Img are online platforms where consumers can buy medicines. These companies have also been working on integrating telemedicine and diagnostics facilities on their platforms, fetching even higher margins and additional revenues.

The sector is also expected to E-pharmacies have cause a disruption been working on in the pharmaceutical distribution telemedicine and model as e-phardiagnostics macies, because of facilities on their nature, can their platforms directly deal with drug manufactur-

ers instead of having three-four middlemen in the supply chain, leading to greater cost efficiency.

"This category is extremely large, with a high frequency of purchase, and fits in a consumer's life cycle very well as medicines are a vital purchase in a person's life, especially for chronic patients," e-pharmacy firm PharmEasy's co-founder



E-pharmacies such as Medlife are online platforms where consumers can buy medicines.

Dharmil Sheth said, adding that the sector also provides greater margins as compared to grocery retail

Technology giant Amazon partnered with US-based firm Giant Eagle Pharmacy in November to allow users of its artificial intelligence-based virtual assistant Alexa to request prescription refills.

The segment has been considered a disruptive industry for quite some time, with experts anticipat-

integrating

ing growth.

> According to an EY report, the addressable medicine market for e-pharmacies is likely to reach \$18.1 billion by 2023 from \$9.3

billion in 2019, a compounded annual growth rate of 18.1%.

"The most important thing to recognise is that what we see from the players is the tip of the iceberg. The next 9 to 10 months will see a rapid evolution and transformation in these services," said Pramod Sudhindra, digital leader-life sciences at EY India.

Reliance, Amazon bet Central bank opens doors for financing fiscal deficit

RBI's ₹57,182-cr dividend transfer this year is a fraction of ₹1.76 tn transfer done last yr

asit.m@livemint.com **NEW DELHI**

uarded transfer of dividends by the Reserve Bank of India (RBI) to the government in its central board meeting on Friday has opened the door for deficit monetization as the government prepares to unveil its second fiscal stimulus package amid growing concerns over growth revival.

In its 584th central board meeting, RBI decided to transfer ₹57,182 crore as surplus to the government for the accounting year ended 30 June, slightly less than the ₹60,000 crore budgeted by the government for FY21. The fresh transfers are a fraction of the record ₹1.76 trillion that the RBI had transferred to the government in the year-ago, including ₹1.23 trillion as dividend and ₹52,640 crore as a transfer from contingent reserves.

A government official with knowledge of the internal deliberations at RBI's board meeting said central bank officials gave a lot of information on how RBI lost out on its investments in the internationalmarket during the last

accounting year, which impacted the dividend amount. RBI (July-June) and finance ministry (April-March) have been following different accounting years, but the central bank has now agreed to synchronize

its financial year with that of the government in tune with the Bimal Jalan panel recommendations. Subsequently, RBI's 2020-21 accounting year will be for nine months from 1 July 2020 to 31 March 2021.



RBI's dividend transfers make way for a likely deficit monetization as the government prepares to unveil its second fiscal stimulus package amid concerns over economic revival.

Thereafter, financial years of both the Centre and the central bank will start on l April.

"It is not a do or die situation for the government when it comes to dividends this year. It does require more resources, but fiscal measures

through deficit financing is a plausi-

ble option as RBI is favourably dis-

posed to the idea," the government

official cited above said on condition

BESIDES, the central

bank is favourably disposed to the idea

of fiscal measures

via deficit financing

A govt official said

that RBI gave a lot of

information on how

it lost out on savings

of anonymity.

set of fiscal measures after announcing a ₹20-trillion package in May, which was heavily tilted towards liquidity support and government guarantees. Mint on 10 August reported that the next stimulus will be timed after examining the June

some degree of deficit monetization

in extreme situation

IMF had said that

quarter gross domestic product (GDP) growth figures to be released by August-end. "The focus will be on migrant workers and urban joblessness. Under Atmanirbhar Bharat,

announced, including productionlinked incentive schemes for consumer goods sectors," the report had said quoting an official.

While recognizing that going into the covid-19 crisis, India had limited fiscal space, Changyong Rhee,

director, Asia Pacific, International Monetary Fund (IMF), had said last month. in an extreme situation, where India needs to issue a large amount of government bond, some degree of monetization of deficit may be unavoidable. "But that

has to be met with a concrete plan to get back to normal without hurting the central bank's independence.' IMF cautioned that India needs to contain covid-19 on priority to make recovery sustainable.

Covid fear aids cybersecurity biz worldwide

FROM PAGE 1

nomic Forum, cybersecurity is the top man-made worry for CEOs globally, and the industry is poised for significant growth in the next decade as it continues to become a business ena bler for all organizations.

Lucideus's Modi said covid has seen businesses come under multiple and sophisticated phishing and ransomware attacks while grappling with work from home policies.

For WiJungle, whose clients include government departments and private firms across hospitality, healthcare, education, financial services, retail, defence and transportation, covid has been a mixed bag.

"Post-covid, the contribution of private sector in top line has significantly gone down, while government business is consistent...there are verticals which have become almost dormant, like hospitality etc., said Karmesh Gupta, CEO and co-founder of WiJungle.

The pandemic is changing cybersecurity businesses in different ways. Noida- and Atlanta-based Kratikal Tech Pvt. Ltd, incubated by the ministry of telecommunications, has seen a shift towards going completely digital. The company offers solutions related to email authentication and anti-spoofing, among others.

"This has given us the oppor tunity to expand our reach... we are actively exploring opportunities in the European market, said Pavan Kushwaha, CEO and co-founder, Kratikal,

However, cybersecurity firms are also dealing with many challenges. "The biggest challenge has been quantifying risk. No organization can confidently predict the risk posture of the organization and hence budget planning/risk analysis is flawed," said Modi.

Retirement may not impact MS Dhoni's brand image

FROM PAGE 1

the longer form of the game and retirement was looming large. He charges may be half of what Virat Kohli does. So, if as a brand manager, one wants a saleable celebrity, and has a lower budget, Dhoni for a while has been the best cost-effective choice," said Sandeep Goyal, chief mentor of the Indian Institute of Human Brands.

Goval said Dhoni's retirement will not immediately impact his appeal-many contracts are still in force, and he will play the Indian Premier League in autumn this year and spring next year.

According to the Duff & Phelps Celebrity Brand Valuation study, Dhoni had a brand value of \$41.2 million in 2019, placing him at the ninth spot, up from the previous year's rank 12. He is the only cricketer in the list of top 10 celebrities, topped by Indian cricket team captain Virat Kohli, with a brand value of \$237.5 million.

According to Tuhin Mishra, managing director of Baseline Ventures, a sports management firm, the value of an active sportsperson declines with retirement. Yet, Dhoni is an icon and will always have a certain value for the brands, Mishra said.

"Dhoni, as a brand, brings humility and stability to the table. He comes across as a leader and people are ready to embrace that quality. People are willing to listen to what he has to say; that works wonderfully well in his favour," he added.

The cricketer's recent campaigns with mutual funds industry body Amfi, online pharmaceuticals firm Netmeds and global payments firm Mastercard reflect the gravitas, relevance and authority of his personality which can influence consumers, some analysts

Shuchi Bansal contributed to the story.

Bollywood looks to tap political themes, script edgy thrillers

FROM PAGE 1

and lawmakers form a curious nexus." director Mehta had said in a statement issued to announce the Vikas Dubey film. "It is early to discuss approach, but it (the film) will be approached responsibly and as a fascinating recounting. I see an edgy political thriller emerging out of this, and it will be very interesting to tell this story".

Meanwhile, a statement to announce Devgn's film said, "it narrates the story of the sacrifice of 20 Indian army men who fought the Chinese army", adding that "the actor, who, in the past, has acted in films like LOC: Kargil, The Legend of Bhagat Singh, Tanhaji, Singham and RAID, is all set to showcase the might, valour and sacrifice of the Indian

Bollywood stopped addressing sociopolitical issues after the Emergency in



A still from *Tanhaji*. Bollywood has more than embraced the surge in nationalism of late.

the 1970s when Kissa Kursi Ka, a satire on the politics of Indira Gandhi, was banned and its prints confiscated.

Of late, however, it has more than embraced the surge in nationalism with films like Tanhaji: The Unsung Warrior (₹269 crore), Uri: The Surgical Strike (₹244 crore), and a host of political biopics in the run-up to the Lok Sabha elections last year such as PMNarendra Modi, Thackeray and The Accidental Prime Minister.

"Filmmakers make films based on the mood of the day, and there is no doubt there is an attempt to drive an ideology and agenda around ideas of nationalism and patriotism currently," film critic Manoj Kumar R. had said in an earlier interview to Mint.

The new generation of filmmakers, like common people and audiences, does not shy away from chestthumping, a phenomenon that has been especially evident since the Bharativa Janata Party (BJP) government

came to power. "The Modi government has used the emotive sensibility of cinema to reach out to the masses. It has realised that films have an impact and are a mass genre of entertainment,' political analyst Manisha Privam said in an earlier inter-



Kulshrestha (Pro Vice Chancellor, Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai. C.G.) on August 4, 2020. Prof. Manoj was on deputation from Indira Gandhi National Open University, where he worked for over 25 years

OBITUARY

In his loving memory, a Shanti Paath will be held on Monday, August 17 at 5pm at

From: Dr. Rashmi Kulshrestha (Wife) Founder & CEO, Regulatory Wisdom, New Delhi Anunay & Anvita Kulshrestha (Children)



FUTURE TENSE

The Centre is working on its next | more policy reforms may be

THE next round of

stimulus will be timed

after examining June GDP figures to be

released by Aug-end

With profound grief and sorrow, we regret to inform you of the sudden demise of Prof. Manoj

म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना

कार्यालय परियोजना यंत्री, भदभदा रोड संभाग क्रमांक-02 भोपाल, Mobile No. 9425601534 ई-मेल : bhopaldivision2@gmail.com

क.-मप्रपुआअविनि/239/पयं/भोपाल-02/तशा/2020 भोपाल, दिनांक 11.08.2020

प्रेस विज्ञप्ति

निर्माण कार्य (138), बहुमंजिला आवास गृह, पुलिस रेडियो कॉलोनी भदभदा रोड भोपाल जिला-भोपाल के निर्माण हेतु निविदा क्रमांक- 04/2020-21 (ऑनलाइन निविदा क्रमांक- 2020 MPPHC 101325 1) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 27.08.2020 समय 5.00 बजे तक ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण Portal: https:// www.mptenders.gov.in पर देखे जा सकते हैं। म.प्र. माध्यम/98156/2020

परियोजना यंत्री

विकास निगम

WBSFDEL NIT No.: DPD/Tender/HVDS/2020-21/WB/01

National Open Competitive Procurement

(Two envelope Bidding Process with e-Procurement) The Chief Engineer, Distribution Project Department, WBSEDCL, Vidyut Bhavan (1st Floor, 'C' Block), Salt Lake, Kolkata-700091 invites e-tender (e-Tender ID: 2020_WBSED_292693 (Howrah) & 2020_WBSED_292694 (Purba Medinipur) for 'Supply and Installation of High Voltage Distribution System (HVDS) in semi-urban and rural areas under various divisions of Howrah & Purba Medinipu districts within the state of West Bengal' under West Bengal Electricity Distribution Grid Modernization Project. Pre Bid meeting: 02.09.2020 at 11:00 hrs. The period of sale of Bid document (online) is from 17.08.2020 (10:00 hrs.) to 22.09.2020 (12:00 hrs.) Other details of tenders are available or www.wbtenders.gov.in & www.wbsedcl.in

ICA-T3190(5)/2020



World Bank financed Assam Agribusiness & Rural Transformation Project (APART) Assam Rural Infrastructure and Agricultural Services (ARIAS) Society

> (An Autonomous Body of the Government of Assam) **REQUEST FOR PROPOSALS (RFP)**

For selection of consulting Services for "Providing incubation and acceleration support to the Agri enterprises under Assam Agribusiness and Rural Transformation Project (APART)"

No. ARIAS/APART/I&A/151/2016/Pt-3/34 Dated Guwahati the 17th August, 2020 The Government of Assam (GoA) through the Government of India has received a loan from the World Bank (WB) for implementation of the Assam Agribusiness & Rural Transformation Project (APART). The ARIAS Society now intends to apply a portion of the loan for selection of Consulting Services for "Providing incubation and acceleration support to the Agri enterprises under Assam Agribusiness and Rural Transformation Project (APART)". Further details may be seen in the detailed RFP for the assignment at the URL - http://www.arias.in/procurements.html. The firms would be selected in accordance with the QBS Method of the World Bank's Procurement Regulations, July 2016 (as updated)', available at www.worldbank.org. Further information may be obtained at the address given below from 11.00 am to 04.00 pm (IST) on all working days.

1. Downloading of RFP document starts from 18th August,2020

2. Last date and time of submission of Proposal 18th September,2020 (14.00 hrs-IST)

The State Project Director, ARIAS Society, Agriculture complex, Khanapara,

G.S. Road, Guwahati-781022 (Assam)

3. Date and time of opening of Proposal 18th September,2020 (14.15 hrs-IST) 4. Date and time of Pre-proposal conference: 31st August, 2020 (11.30 hrs-IST)

> Tel: 0361-2332125; website: www.arias.in; email: spd@arias.in Sd/-

State Project Director, ARIAS Society

UPCOMING 200 BED

& revenue sharing proposal to devalgupta97@gmail.com

- PROTON BEAM RADIOTHERAPY.
- LINEAC & BRACHYTHERAPY. CARDIAC CATH LAB.
- PET-CT, MRI
- ROBOTIC JOINT & SPINAL SURGERY.

JUBILANT FOODWORKS LIMITED CIN: L74899UP1995PLC043677 Regd. Office: Plot 1A, Sector 16A, Noida- 201301, U.P.

Noida - 201304, U.P. Tel: +91-120-4090500, Fax: +91-120-4090599 Website: www.iubilantfoodworks.com. Email: investor@iublfood.com

Corporate Office: 5th Floor, Tower D, Logix Techno Park, Sector 127,

NOTICE OF THE 25th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Twenty Fifth (25th) Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Jubilant FoodWorks Limited ('Company') will be held on Tuesday, September 15, 2020 at 11.00 a.m. IST through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM'), without the physical presence of the Members at the meeting, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular no. 20/2020 dated May 05, 2020 read with Circular no. 14/2020 dated April 08, 2020 and Circular no. 17/2020 dated April 13, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and SEBI circular no SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 ('SEBI Circular') (MCA Circulars and SEBI Circular collectively referred as 'Circulars'), to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM.

In compliance with Circulars, the Notice of the AGM along with the Annua Report for FY 2019-20 ('Annual Report') will be sent only through electronic node to those Members whose email ids are registered with the Company, Depository participant. The Notice of the AGM and Annual Report will also be made available on the Company's website at www.jubilantfoodworks.com vebsites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at <u>www.bseindia.com</u> and National Stock Exchange of India Limited at <u>www.nseindia.com</u> and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) a www.evoting.nsdl.com.

The Company is providing the remote e-Voting facility before the AGM and e-Voting facility at the AGM to its members to exercise their right to vote on all the resolutions proposed to be transacted at the AGM by electronic means and the facility being provided by NSDL. Facility for e-Voting at the AGM will be made available to those Members present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-Voting. The Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may also attend/ participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. Detailed process and manner of remote e-Voting e-Voting at the AGM and instructions for attending the AGM through VC/OAVM is being provided in the Notice of the AGM.

Members whose email ids are already registered with the Company, Depositories, may follow the instructions for remote e-Voting as well as e-Voting at AGM as provided in the Notice of the AGM. Members whose email ids are no registered with the Company/Depository participants may follow the below process for registering or updating their email ids for receiving all communications including Annual Report, Notices etc. from the Company electronically. Upon successful registration of email id, the login ID and password for e-voting shall be shared on the member's registered email id:

. Demat holding: Members holding Equity Shares of the Company in dema form and who have not registered their email ids may temporarily register their email ids with Company's RTA, Link Intime India Pvt. Ltd. by clicking the link: https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html and following the registration process as guided therein. In case of any query, a Member may send an email to Link Intime at rnt.helpdesk@linkintime.co.in. It is $clarified\ that\ for\ permanent\ registration\ of\ email\ id\ and\ Bank\ details\ in\ demail\ demail$ account, Members are requested to approach their respective Depository Participant ('DP') and follow the process advised by DP.

Physical holding: Members holding Equity Shares of the Company in physical form and who have not registered their email ids and/or Bank details may register their details with Company's RTA, Link Intime India Pvt. Ltd. by clicking the link: https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html and following the registration process as guided therein. In case of any query, a $Member\ may\ send\ an\ e-mail\ to\ Link\ In time\ at\ \underline{rnt.helpdesk@linkintime.co.in}.$ This notice is issued for information and benefit of the Members of the

Company in compliance with above mentioned Circulars

For Jubilant FoodWorks Limited

Date: August 14, 2020

Mona Aggarwal **Company Secretary**

शिवराज सिंह चौहान, सीएम, मप्र

सहारा=| www.rashtriyasahara.com

संक्षिप्त खबरे

5

नौकरानी ने की खुदकुशी मालिक गिरफ्तार

नई दिल्ली । नार्थ रोहिणी इलाके में एक नौकरानी ने कोठी में ही खुदकुशी कर ली। पुलिस को मौके पर से कोई सुसाइड नोट बरामद नही हुआ। नौकरानी की मां के बयान पर पुलिस ने कोठी के मालिक कमल किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान के लिए कुछ सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी कब्जे में ली है। जिसकी सहायता से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। वह जेजे कॉलोनी नार्थ रोहिणी इलाके में रहती थी। उधर घटना के बाद 50 से ज्यादा लोगों ने कोठी पर पथराव किया। जिसमें इंस्पेक्टर कुलदीप और करीब 3 सिपाही को चोट लगी। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

महापौर ने गंदगी मुक्त दिल्ली अभियान चलाया

नई दिल्ली । उत्तरी दिल्ली के महापौर जय प्रकाश ने रविवार को किनारी बाजार क्षेत्र में गंदगी मुक्त दिल्ली अभियान चलाया। महापौर ने बताया कि गंदगी मुक्त दिल्ली अभियान में हर क्षेत्र की सफाई व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया जा रहा है और ठोस अपशिष्ट पदार्थी का निपटान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वह हर क्षेत्र में जाकर सफाई व्यवस्था का जायजा ले रहे है इस अवसर पर महापौर ने नागरिकों से भी क्षेत्र को स्वच्छ और हरा भरा बनाने में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों की मदद करने की अपील की।

कार्यकारिणी की बैठक

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय एवं कॉलेज कर्मचारी युनियन की कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें यह फैसला लिया गया है कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले पूर्ण वित्त पोषित 12 कॉलेजों के कर्मचारियों को वेतन न मिलने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कॉलेजों में तीन महीने से वेतन नहीं मिलने से कर्मचारी यूनियन ने तय किया है कि वे दिल्ली विश्वविद्यालय में 19 व 20 अगस्त को धरना-प्रदर्शन कर वीसी को ज्ञापन सौपा जाएगा जिसमें कर्मचारियों को तुरंत वेतन दिलाने की मांग की जाएगी। जल्द वेतन न मिला तो वाइस

चांसलर का घेराव करेंगे।

शाहीन बाग के कई लोग भाजपा में शामिल



प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने

दिलाई पार्टी की सदस्यता

नर्ड दिल्ली (एसएनबी)। सीएए विरोधी प्रदर्शन से देशभर के ध्यान खींचने वाले शाहीन बाग के कई लोग भाजपा में शामिल हो गए। शामिल होने वालों में राष्ट्रीय

उलेमा काउंसिल, दिल्ली सचिव एवं सामाजिक कार्यकर्ता शहजाद अली, गायनोलॉजिस्ट डॉ मेहरीन, इंटीरियर डेकोरेटर व पूर्व आप कार्यकर्ता

तबस्सुम हुसैन आदि शामिल थे। भाजपा में उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करायी। कार्यक्रम का संयोजन मीडिया पैनलिस्ट निगहत अब्बास ने किया और दिल्ली भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष मो. हारुन भी उपस्थित थे।

श्याम जाजू ने कहा कि मोदी जी ने सबका साथ,

सबका विकास, सबका विश्वास का सिर्फ नारा ही नहीं दिया है बल्कि उसका क्रियान्वयन भी किया है। हर वर्ग, हर समुदाय को एक सुत्र में जोड़कर भाजपा सरकार ने देश के विकास को एक नई गति प्रदान की

है। कांग्रेस ने 70 साल मुस्लिम समुदाय का शोषण किया, लेकिन भाजपा सरकार ने उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा। उल्लेखनीय है कि शाहीन बाग में भाजपा नीत केंद्र सरकार के खिलाफ महीनों विरोध चला था, और लोग संशोधित नागरिकता कानून का विरोध कर रहे थे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन प्रत्येक भारतीय का

नई दिल्ली। सोमवार ● 17 अगस्त ● 2020

दायित्व : प्रो. देशपांडे

नई दिल्ली (एसएनबी)। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की ओर से राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सम्पर्क प्रमुख प्रो. अनिरुद्ध देशपांडे ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाज को आगे ले जाने का चिंतन है। समाविष्ट शिक्षा ही शिक्षा नीति का अंतिम लक्ष्य है। शैक्षणिक संस्थाओं को सामाजिक दायित्व का बोध कराने वाली यह नीति है।

कार्यक्रम में न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रख्यात शिक्षाविद् दीनानाथ बत्रा, भारतीय विश्वविद्यालय संघ की महासचिव डॉ. पंकज मित्तल एवं भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव डॉ. वी.के. मल्होत्रा सहित अनेक केंद्रीय संस्थानों प्रमुख एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों, एनआईटी, आईआईटी के कुलाधिपति, कुलपति, निदेशक, वरिष्ठ प्राध्यापक व देश के 30 प्रांतों से न्यास के 350 से अधिक वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे।

असंगठित कामगारों के लिए छह माह में बनेगा डाटाबेस

कई साल से योजना चल

रही मगर अब तक नहीं

हो पाया उनका पंजीयन

अमरेश कुमार

नई दिल्ली। एसएनबी

असंगठित क्षेत्र के कामगार एवं मजदूरों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस मनाया जा रहा है । इसके बनाए जाने से सरकार को काफी सह्लियत होगी और मजदूरों को

भी सरकारी योजनाओं का लाभ जल्द मिलेगा। असंगठित क्षेत्र के कामगारों एवं मजदुरों के पंजीयन को लेकर कई सालों से योजना चल रही है मगर अब तक उनका पंजीयन नहीं

हो पाया है। डेटाबेस बनाने की जानकारी केंद्र सरकार 📑 ने केंद्र सरकार के अलावा दिल्ली सरकार को भी नोटिस ने हाईकोर्ट को दी है।

केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने असंगठित क्षेत्र के कामगारों एवं प्रवासी मजदुरों के लिए डेटाबेस बनाना शुरू कर दिया है जो छह महीने में पूरा हो जाएगा। सरकार ने यह भी कहा कि इसके लिए बजट का प्रावधान किया जा रहा है और वित्त मंत्रालय से इसकी अनुमति मिलने वाली है। यह डेटाबेस सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनाया जा रहा है । केंद्र सरकार के इस बयान के बाद हाईकोर्ट ने उस याचिका को निपटा दिया जिसमें प्रवासी मजदूरों के पंजीयन को लेकर निर्देश देने की मां की गई थी।

न्यायमर्ति प्रतिभा मनिंदर सिंह ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों एवं मजदुरों के लिए डेटाबेस एवं पोर्टल बन जाने से उनको सरकार द्वारा मिलने वाली लाभ मिलने

> मे परेशानी नहीं होगी। उन्हें किसी भी विषम परिस्थिति में जल्दी मदद पहुंचा जा सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से डेटाबेस बनाने में तत्परता बरतने को कहा है और उससे संबंधित याचिका निपटा दिया । इस मामले में न्यायमूर्ति

जारी किया था। दिल्ली सरकार ने कहा था कि उसने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के 710 शिकायतें मिली और उसमें से पचासी फीसदी मामले को निपटा दिया। उन लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर की भी शुरु आत की है और नोडल अधिकारी नियुक्त किया है । दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि उसने लॉकडाउन के दौरान 36 हजार प्रवासी मज़दूरों को 10-10 हजार रुपए दिए हैं। पीठ ने के बाद दोनों सरकारों से मजदूरों के लिए तत्काल डाटाबेस बनाने को कहते हुए याचिका निपटा दी।

कोरोना के खिलाफ जंग में आगे रहे पशु प्रेमी

नई दिल्ली (एसएनबी)। वैश्विक महामारी कोरोना से जहां आमजन पीड़ित हैं वहीं पशु पक्षियों को भी इससे जूझना पड़ रहा है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में उन पशु प्रेमियों को सम्मानित किया गया, जो लगातार पशु-पक्षियों को कोरोना से बचाने में लगे हैं। कार्यक्रम में राज्य मानद पशु कल्याण अधिकारी योगेंद्र कुमार ने ध्वजारोहण किया।

समारोह को संबोधित करते हुए योगेंद्र कुमार ने कहा कि लॉकडाउन में भूखे प्यासे पशु-पिक्षयों की देखभाल व भोजन की व्यवस्था पशु प्रेमियों ने निस्वार्थ भाव व लगन की। इसके साथ ही घायल पशु-पक्षियों का उपचार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे लोगों को सम्मानित करने में खुशी महसूस हो रही है। इन नागरिकों ने ऐसे जीवों की सहायता की, जो अपना दर्द बता नहीं सकते। अजय कुमार ने इन पशु प्रेमियों से उम्मीद जताई है कि वह आगे भी पर्यावरण को बचाने के लिए काम

कार्यक्रम में पुलिस के अधिकारी विशेश्वर सिंह मलिक ने इन पशु प्रेमियों को कोरोना योद्धा का सम्मान देते हुए उनकी सराहना की। इस मौके पर वक्ता बीके पांडेय,

जिला मानद पशु कल्याण अधिकारी इंद्र सोनी, अनिल चौधरी, कमलकांत समेत अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे।

ध्वनि प्रदूषण रोकने को अभी और भी कदम उठाने की जरूरत: एनजीटी

नई दिल्ली (एसएनबी)। ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कहा कि प्रदूषण रोकने में दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी (डीपीसीसी) एवं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) ने कदम उठाए जाने की

जरूरत है। एनजीटी के अध्यक्ष यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ध्वनि

प्रदूषण रोकने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को निगरानी करने की जरूरत है। उसने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव से कहा कि वे पुलिस व सरकार के अधिकारियों से टीम बनाएं जिसमें एक डीसीपी रैंक के अधिकारी व एसडीएम आदि रहे और वह प्रदुषण फैलाने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करें। साथ ही इस काम में डीसीपी व एसडीएम को अलग से लगाया जाए। उसने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर

हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायमुर्ति एसपी गर्ग की अध्यक्षता वाली कमेटी से भी कहा कि वह प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने जाने के मुद्दे को देखें। उसने सीपीसीबी से भी कहा कि वह जुर्माने के नए नियम को लागू करें जिसमें प्रदूषण फैलाने वालों पर एक अहम कदम उठाए है, लेकिन अभी कुछ और) लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इससे पहले

जुर्माने के नए नियम लागू डीपीसीसी ने एनजीपी से करें जिसमें प्रदूषण कहा था कि सभी क्षेत्रों में फैलाने वालों पर एक ध्वनि प्रदुषण का स्तर सही लाख तक का प्रावधान है

> औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा था। दूसरी रिपोर्ट में ध्वनि प्रदूषण का लेवल कम पाया गया। औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने में मुख्य योगदान वाहनों का रहा। एनजीटी ने अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली गठित कमेटी से कहा कि प्रदुषण रोकने को लेकर और उसे किसी संस्था या किसी अन्य विशेषज्ञ से मदद लेने की जरूरत पड़े तो वह ले। साथ ही वह इस बाबत अपना रिपोर्ट दाखिल करें।

था,

लेकिन

जहरीले धुएं से बचाव के लिए पंजाब ने शुरू की योजना

नई दिल्ली (एसएनबी)। राजधानी में अक्टूबर महीने में धुंध छा जाती है व हवा जहरीली हो जाती है जिसका मुख्य कारण पंजाब व हरियाणा में पराली जलाया जाना है। यह राजधानी के लिए चिंता का विषय है, पंजाब व हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त पर्यावरण प्रदूषण (नियंत्रण) अथारिटी को सूचना दी है कि दोनों सरकारें प्रदूषण नियंत्रण के कारगर कदम उठा रहा है।

पंजाब व हरियाणा सरकार ने कहा कि वे किसानों की सुविधा के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) स्थापित करेंगे जहां किसानों को पराली को खेतों में तुरंत समाप्त करने के लिए आधुनिक ऊपकरण भाड़े पर मिल सकेगा। पंजाब सरकार ने अबतक 7378 सीएचसी खोले हैं लेकिन इस वर्ष इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी व 5200 नए सीएचसी खोले जाएंगे ताकि प्रत्येक गांव में यह केन्द्र किसानों की मदद करेगी व ज्यादा किसान यांत्रिक विधि से पराली समाप्त कर सकेंगे। पंजाब सरकार एक मोबाइल एप्प लांच करेगा ताकि लोग इस सुविधा को प्राप्त करने संबंधी जानकारी ले पाएंगे।

एनसीवेब ने निकाले गेस्ट टीचर्स

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन कॉलेजिएट वीमेंस एजुकेशन बोर्ड (एनसीवेब) ने अपने 27 कॉलेज केंद्रों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ाने वाले शैक्षिक सत्र 2020 -21 के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र मांगे गए है। ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने की अंतिम तिथि 3 सितंबर है। ऑन

लाइन फॉर्म जमा कराने तिथि 3 सितम्बर के लिए बोर्ड की वेबसाइट और डीयू की

वेबसाइट पर जाकर फार्म अपलोड व जमा

नॉन कॉलेजिएट वीमेंस एजुकेशन बोर्ड के श्री अरबिंदो कॉलेज सेंटर के प्रभारी प्रो हंसराज ने बताया है कि कोरोना के चलते इस वर्ष शैक्षिक सत्र अक्टूबर में शुरू होने की संभावना है। हर साल नॉन कॉलेजिएट का शैक्षिक सत्र अगस्त माह में शुरू हो जाता था लेकिन कोविड-19 के कारण इस साल विलंब से शुरू होगा। उनका कहना है कि नियमित कॉलेजों में एडिमशन की दूसरी व तीसरी लिस्ट जारी होने के बाद ही नॉन कॉलेजिएट में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होती है। इस बार सितंबर के अंतिम सप्ताह में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस साल बोर्ड के 26 सेंटरों पर शिक्षकों की संख्या में भी इजाफा होगा। यह इजाफा गत वर्ष ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण देने से छात्राओं

की सीटें बढ़ने के कारण

शिक्षकों की संख्या भी

आवेदन करने की अंतिम

ईडब्ल्यूएस कोटे से बढ़ी शिक्षकों की २५ फीसद सीटें :

पिछले साल छात्राओं की बीए (प्रोग्राम) और बीकॉम (प्रोग्राम) में 10 फीसद सीटें बढ़ी थीं। इस बार 15 फीसद सीटें बढ़ने से लगभग 1400 शिक्षकों की नियुक्ति संभव है। ईडब्ल्यएस के कारण बढी सीटों पर ईडब्ल्यूएस शिक्षकों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। हर विभाग ने इस बार ईडब्ल्यूएस कोटे के शिक्षकों का अलग से पैनल

बढेंगी।

अधिकारियों ने

जुबिछैंट फूडवर्क्स लिमिटेड सीआईएनः L74899UP1995PLC043677 **कॉरपोरेट कार्यालयः** 5वीं मंज़िल, टॉवर डी, लोजिक्स टैक्नो पार्क, सेक्टर-127, नोएडा-201304, उ.प्र.

फोनः +91-120-4090500, फैक्सः +91-120-4090599 वेबसाइटः www.jubilantfoodworks.com, ईमेलः investor@jublfood.com

25वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदुद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (लिस्टिंग के दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 के साथ पठित परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 तथा परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 ("एमसीए परिपत्रों") तथा सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 (एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र सामूहिक रूप से "परिपत्रों" कहे गए हैं) के अनुपालन में, **जुबिलैंट फूडवर्क्स** लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की पच्चीसवीं (25वीं) वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") मंगलवार, 15 सितम्बर, 2020 को पूर्वा. 11.00 बजे (मा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से, बैठक मे . सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेत आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में. एजीएम की सूचना, वित्तीय वर्ष 2019—20 हेतु कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट ("वार्षिक रिपोर्ट") के साथ कम्पनी के उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक विधि से भेजी जाएगी, जिनकी ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स के पास पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.jubilantfoodworks.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंजेज अर्थात् बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर तथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। कम्पनी अपने सदस्यों को एजीएम में निष्पादन हेत प्रस्तावित सभी प्रस्तावों पर इलेक्टॉनिक

साधनों द्वारा वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग सुविधा तथा एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है तथा उक्त सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपस्थित उन सदस्यों को वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी जिनके द्वारा प्रस्तावों पर अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग द्वारा नहीं डाला गया है। जो सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके हैं, वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं /भाग ले सकते हैं, परंतु उनको दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा तथा एजीएम में ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और विधि तथा वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने हेतु अनुदेश एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराए गए हैं।

सदस्यगण, जिनकी ई–मेल आईडी कम्पनी / डिपॉजिटरीज़ के पास पहले से पंजीकृत हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में ई-वोटिंग के लिए एजीएम में उपलब्ध कराए गए अनुदेशों का पालन कर सकते हैं। सदस्यगण, जिनकी ई—मेल आईडी कम्पनी / डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत नहीं हैं, वे कम्पनी से वार्षिक रिपोर्ट, सूचनाएं इत्यादि सहित सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त करने के लिए अपनी ई—मेल आईडी पंजीकृत अथवा अद्यतन कराने हेतु निम्न प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। ई–मेल आईडी का सफल पंजीकरण होने पर, ई–वोटिंग के लिए लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड सदस्य की पंजीकृत ई—मेल आईडी पर भेजा जाएगा :

. डीमैट धारण : सदस्य, जो कम्पनी के इक्विटी शेयर डीमैट रूप में धारण किए हुए हैं तथा जिनके द्वारा अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं करवाई गई है, लिंक https://linkintime.co.in/EmailReg/Email Register.html पर क्लिक करके तथा उसमें दी गई पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करके कम्पनी के आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. के पास अपनी ई-मेल आईडी अस्थायी रूप से पंजीकृत करवा सकते हैं। किसी संदेह की स्थित में, सदस्य rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर ई-मेल भेज सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि डीमैट खाते में ई-मेल आईडी तथा बैंक विवरण के स्थायी पंजीकरण के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ("डीपी") से सम्पर्क करें और डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया का पालन करें।

भौतिक धारण : सदस्य, जो कम्पनी के इक्विटी शेयर भौतिक रूप में धारण किए हुए है तथा जिनके द्वारा अपनी ई-मेल आईडी तथा / अथवा बैंक विवरण पंजीकृत नहीं करवाया गया है, लिंक : https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html पर क्लिक करके तथा उसमें दी गई पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करके कम्पनी के आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. के पास अपना विवरण पंजीकृत करवा सकते हैं। किसी संदेह की स्थित में, सदस्य rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर ई-मेल भेज सकता है। वह सूचना, उपरिवर्णित परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी के सदस्यों की जानकारी और लाम के लिए दी जा रही है।

दिनांकः 14 अगस्त, 2020

स्थानः नोएडा (उ.प्र.)

कृते जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड मोना अग्रवाल कम्पनी सचिव ग्रेटर नोएडा (एसएनबी)। अमेरिका में पढ़ाई कर रही छात्रा सुदीक्षा भाटी की बुलंदशहर में औरंगाबाद के पास सड़क हादसे में मौत को एक सदस्य को सरकारी नौकरी. चार एकड़ किष एक सप्ताह हो गए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक पीडित परिवार को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी है। छात्रा के पिता ने मुख्यमंत्री को पत्र करने की मांग की है। जितेंद्र भाटी का कहना है लिखकर एक करोड़ की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को गया है। छात्रा सुदीक्षा भाटी

सरकारी नौकरी, चार एकड़ भूमि की मौत का मामला का पट्टा व सुदीक्षा के नाम पर किसी सरकारी शिक्षण संस्थान का नामकरण अथवा स्थापना करने की मांग की है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में छात्रा के पिता जितेंद्र भाटी ने

कहा कि सदीक्षा भाटी परिवार की आशा व उम्मीद थी,उसकी अकाल मृत्यु से पूरा परिवार न केवल बेसहारा हुआ है, बल्कि मानसिक रूप से

नेशनल टैलेंट हंट का

ऑनलाइन आयोजन

ग्रेटर नोएडा (एसएनबी)। वैश्विक

महामारी कोरोना के चलते ईएमसीटी

द्वारा आयोजित नेशनल टैलेंट हंट-

2020 का कॉन्टेस्ट ऑनलाइन कराया

गया। प्रतियोगिता में देश से विभिन्न आय

वर्ग में बड़ी संख्या में बच्चे व युवाओं ने

भाग लिया और अपनी डांस व सिंगिंग

कला की वीडियो भेजी। प्रतियोगियों में

से विजेताओं का निर्णय कथक नृत्य में

पारंगत त्रिभुवन महाराज व उनकी पत्नी

श्रीमती रजनी त्रिभवन महाराज ने किया।

बता दें कि त्रिभुवन महाराज बिरज्

महाराज के प्रपौत्र हैं। टैलेंट हंट की

आयोजक रश्मि पाण्डेय ने बताया कि 4-

7 आयु वर्ग में दृष्टि प्रथम, साक्षी द्वितीय

एवं अर्णव तृतीय स्थान पर रहें। वहीं 8-

12 आयु वर्ग में सोनाक्षी प्रथम, ध्रुवि गिरी

द्वितीय व गौरी शाह तृतीय स्थान पर रहीं।

13-17 आयु वर्ग में दृष्टि सक्सेना

प्रथम, ऋषिका शाह द्वितीय एवं नव्या

संगल तृतीय स्थान प्राप्त किया। स्पेशल

वर्ग में मुरादाबाद से यशस्वी शर्मा,

दिल्ली से अक्षिना, नोएडा से आराध्या

को सराहना मिली। रश्मि पाण्डेय ने

बताया कि ऑनलाइन प्रतियोगिता के

जजों ने प्रतिभागियों के वीडियो को

बहुत ही बारीकी से देखकर निर्णय

लिया। उनका कहना है कि देश में बहुत

प्रतिभा छुपी हुई है, लेकिन सामने नहीं

आ पातण्ठ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से

निशुल्क क्लासेज भी दे जाती हैं। बच्चों

की प्रतिभा को निखारने का प्रयास

किया जाता है।

्रटूट चुका है। जितेंद्र भाटी की सरकार से मांग है कि परिवार को एक करोड़ की आर्थिक सहायता, भूमि का पट्टा तथा सुदीक्षा के नाम से किसी सरकारी संस्थान का नामकरण अथवा स्थापना कि परिवार के सामने बहुत बड़ा संकट पैदा हो

परिजनों को दिखाई फ्टेज: छात्रा के पिता जितेंद्र भाटी ने बताया कि रविवार को बुलंदशहर के डीएम, एसएसपी व अन्य अधिकारियों ने परिवार के पांच सदस्यों को बलाया था। घटनास्थल की फटेज दिखाई है। फुटेज घटनास्थल से करीब 8 किमी. दूर की थी, जिससे वह संतुष्ट नहीं थे।

परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे सपा नेता अतुल प्रधान

ग्रेटर नोएडा (एसएनबी)। दादरी क्षेत्र के डे्री स्कनर गांव की छात्रा सुदीक्षा भाटी की सड़क हादसे में मौत होने पर परिजनों को सांत्वना देने सपा नेता अतुल प्रधान रविवार को दूसरी बार पहुंचे। सपा ने छात्रा के परिवार के एक सदस्य को गौकरी व एक करोड़ रुपए सहायता राशि देने की मांग की है। ज्ञात हो कि डेरी स्कनर गांव की छात्रा सदीक्षा भाटी की बीते 10 अगस्त को जनपद बुलंदशहर के औरंगाबाद के पास सड़क हादसे में मौत हो गई थी। अमेरिका में पढ़ाई कर रही छात्रा की मौत से परिजनों को गहरा सदमा लगा है। पीड़ित परिजनों को सांत्वना देने के लिए राजनीतिक, सामाजिक व क्षेत्र के लोग डेरी स्कनर गांव पहुंच रहे हैं। रविवार को दूसरी बार सांत्वना देने पहुंचे सपा नेता अतुल प्रधान ने कहा कि 21 अगस्त को सुदीक्षा भाटी की शोक सभा की जाएगी।

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि. कायमगंज, जनपद-फर्रूखाबाद

पत्रांक- क्रय/2020-21/623 दिनांक: 14.08.2020

निविदा सूचना

सत्र 2020-21 हेतु इस चीनी मिल में ई-टेण्डर के माध्यम से वाह्य गन्ना क्रय केन्द्रों से गन्ना परिवहन चीनी गोदामों एवं डायर हाऊस से सम्बन्धित कार्यो तथा मुहरबन्द निविदाओं के माध्यम से चीनी मिल के ई. टी.पी. संचालन, मिल के वेट स्क्रेंबर से निकलने वाली राख को हंटाने, बैगास हटाने के कार्यों एवं आसवनी इकाई इथेनॉल प्लॉट को चलाने हेतु पी.आर.बी. डिवाईस की आपूर्ति एवं स्थापना, मल्टी साईक्लोन लगाने, ब्यायलर गैस बर्नर असेम्बली तथा कूलर की बॉडी बनाने के कार्य हेतु दिनांक 28.08.2020 से 06.10.2020 तक इच्छुक एवं अनुभवी निविदा दाताओं से निविदाएं आमंत्रित की जाती है, विस्तृत जानकारी वेब-साईट www.etender.up.nic.in एवं मिल कार्यालय से प्राप्त की जा

प्रधान प्रबन्धक

भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा-। 12वां तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिर्क्डिंग, 1 टॉल्स्टॉय मार्ग, जनफ्य, नई दिल्ली—110001, फोनः 011-23701070, 23701097, 23701157, 23701195, फैक्स : 23701202, ई-मेल: sbi.04109@sbi.co.in

ई-नीलामी बिक्री सूचना

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

क्षाम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति — दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास दृष्टिबंधक / गिरवी / प्रमारित है, का सांकेतिक / वास्तविक कब्जा, (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ हैं, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर निम्नवर्णित कर्जदारों 🗸 गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्यामूत — दाता (भारतीय स्टेट बैंक) से — प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुप की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 21.09.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

कर्जदार (बी) / गारंटर (रॉ) (जी) / का नाम पता / पते सहित	नीलामी के अधीन आवृत्त प्रमारित प्रतिभूति का पता	आरक्षित मूल्य घरोहर राशि (आरक्षित मूल्य का 10%) वृद्धि राशि	मांग सूचना की तारीख एवं बकाया राशि	सम्पत्ति का स्थल पर निरीक्षण करने हेतु तिथि एवं समय एवं प्राधिकृत अधिकारी का नाम	ई—नीलामी की तिथि / समय 5 मिनट प्रत्येक के आसीमित स्वतः विस्तार सहित
(1) ज़िलियन इन्फ्राप्रौजेक्ट्स प्रा. लि., 5वां तल प्लॉट नं. 2 अनुष्का शॉपिंग मॉल, गर्ग ट्रेड सेंटर सैक्टर-11, रोहिणी दिल्ली — 110085 (2) यूनिफाइ क्लोथिंग लि., 5वां तल प्लॉट नं. 2 अनुष्का शॉपिंग मॉल, गर्ग ट्रेड सेंटर सैक्टर-11, रोहिणी दिल्ली — 110085 (3) श्री सीएस सक्सेना पुत्र श्री रघुबीर किशोर दुन्धा निवासी: 79, दीपाली, पीतमपुरा दिल्ली — 110034 (4) श्रीमती अनिता सक्सेना पत्नी श्री सी एस सक्सेना निवासी: 79, दीपाली, पीतमपुरा दिल्ली — 110034 (5) श्री अनंत सक्सेना पृत्र श्री रघुबीर किशोर दुन्धा निवासी: 79, दीपाली, पीतमपुरा दिल्ली — 110034 (6) श्रीमती रिश्म सक्सेना पत्नी श्री अनंत सक्सेना निवासी: 79, दीपाली, पीतमपुरा दिल्ली — 110034 (7) श्री नरेंद्र किशोर प्रदीप पुत्र श्री रघुबीर किशोर दुन्धा निवासी: 79, दीपाली, पीतमपुरा दिल्ली — 110034 (8) श्री नता किशोर प्रदीप निवासी: 79, दीपाली, पीतमपुरा दिल्ली — 110034 (9) श्री नवल किशोर सक्सेना पुत्र श्री रघुबीर किशोर दुन्धा निवासी: 79, दीपाली, पीतमपुरा दिल्ली — 110034 (9) श्री नता किशोर सक्सेना पुत्र श्री रघुबीर किशोर दुन्धा निवासी: 79, दीपाली, पीतमपुरा दिल्ली — 110034 (10) श्रीमती प्रीति सक्सेना पत्नी नवल किशोर सक्सेना, निवासी: 79, दीपाली, पीतमपुरा दिल्ली — 110034 (10) श्रीमती प्रीति सक्सेना पत्नी नवल किशोर सक्सेना, निवासी: 79, दीपाली, पीतमपुरा दिल्ली — 110034 (10) श्रीमती प्रीति सक्सेना पत्नी नवल किशोर सक्सेना (नवासी: 79, दीपाली, पीतमपुरा दिल्ली — 110034 (10) श्रीमती प्रीति सक्सेना पत्नी नवल किशोर सक्सेना (नवासी: 79, दीपाली, पीतमपुरा दिल्ली — 110034	प्लॉट नं. 35, अडोस पड़ोस अपार्टमेंट, बंगाली स्कॉयर कॉलोनी के पास जिसे अब आशीष नगर कहते हैं, इंदीर (एनपी) में स्थित, यह सम्मित यूनिफाइ क्लोधिंग प्रा. लि. (यूसीपीएल) के नाम पर है। प्रत्येक का क्षेत्रफल 878 वर्ग फीट, (सांकेतिक कब्जा) खाली प्लॉट नं. 17, भूमि सर्वे नं. 25 / 1, गाँव बिचौली हापसी, गोकुल नगर, मेन कनाडिया रोड / एनएव-3, बाँय पास, इंदौर (एमपी) में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती रिश्म सक्सेना के नाम पर है। क्षेत्रफल 500 वर्ग गज खाली प्लॉट नं. 21, भूमि सर्वे नं. 25 / 1, गाँव बिचौली हापसी, गोकुल नगर, मेन कनाडिया रोड / एनएव-3, बाँय पास इंदौर (एमपी) में स्थित यह	₹ 3.70 लाख ₹ 1.00 लाख ₹ 113.00 लाख ₹ 11.30 लाख ₹ 1.00 लाख ₹ 113.00 लाख	\$BI दिनांक 11-07-2018 को, HDFC दिनांक 29-11-2018 को, ICICI दिनांक 25.09.2018 को, PNB दिनांक 19-09-2018 को, OBC Bank दिनांक 19-07-2018 और लक्ष्मी विलास बैंक दिनांक 06-11-2018 को \$BI रू. 79,00,84,826.83 दिनांक 10-07-2018 तक HDFC रू. 5,27,48,448.91 दिनांक 31-10-2018 तक ICICI रू. 26,77,85,840.82 दिनांक 31-08-2018 तक, PNB रू. 19,31,10,219.40 दिनांक 30-11-2017 तक, OBC रू 6,23,21,261.66 दिनांक 30-06-2018 तक और लक्ष्मी विलास बैंक रू. 31,24,93,612.75 दिनांक 31-10-2018 तक कुल रू. 167,85,44,210.37	पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपिंह 4.00 बजे तक प्राधिकृत अधिकारीः श्री अनुज गुप्ता मो. नं. 9643681996 रिजॉल्यूशन एजेंट श्री मनोज सूरी मो. 9871975152	21-09-2020 दोपहर 12:00 बजे से अर्पा. 01:00 बजे तक 5 मिनट प्रत्येक के आसीमित स्वतः विस्तार सहित

अनुरोध पत्र, केवाईसी दस्तावेजों, पैन कार्ड, ईएमडी जमा करने का प्रमाण आदि जमा करने की तिथि व समय और धरोहर राशि RTGS/NEFT के माध्यम से दिनांक 18-09-2020 अर्पाह्न 4.00 बजे तक या उस से पहले जमा करें

भावी बोलीदाता धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट/आर टी जी एस/एन ई एफ टी के रूप में खाता संख्या 33108475877, "THE AUTHORISED OFFICER, SBI, SAM BRANCH-1, NEW DELHI", IFSC Code: SBIN0004109, में जमा करें यदि धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा जमा करते है तो 'भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा—1, नई दिल्ली के पक्ष में जो कि नई दिल्ली में देये हो, व किसी राष्ट्रीकृत या शिडयूल बैंक में बना हो जमा करें।

ई—नीलामी हेतु नियम व शर्तेः-. ई—नीलामी ''जैसा है जहाँ है'' तथा ''जैसा है जो भी है'' के आघार पर ऑन लाईन आयोजित की जायगी।

यह नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता M/S C-1 India Pvt. Ltd., हेल्पलाईन नं. 0124-4302020/21/23/24/25, श्री विनोद, मो. नं. 9813887931 एवं ई—मेल : support@bankeauctions.com) के माध्यम से वेबपोर्टल https://www.bankeauctions.com पर ऑनलाईन संचालित की जायेगी। ऑनलाईन नीलामी बिक्री के अन्तर्गत ई—नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणापत्र, समान्य नियम व शर्तें आदि निविदा दस्तावेज वेबपोर्टल साईट https://www.bankeauctions.com

घोंहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सम्पत्ति(यों) पर कोई प्रमार नही है। तथापि इच्छूक बोलीदाता(ओं) को, ऋणमार, नीलामी में रखी गयी सम्पत्ति(यों) के स्वामित्व तथा सम्पत्ति(यों) को प्रमावित करने वाले दावों / अधिकारों ′ बकाया राशियों के संबन्ध में अपनी स्वयं स्वतन्त्र जांच, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व कर लेनी चाहिए। इस संदर्भ में ई—नीलामी विज्ञापन, बैंक की किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता / वचनबद्धता निर्मित नहीं करता है और न ही कोई वचनवद्धता / प्रतिवद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा जायेगा।

प्राधिकृत अधिकारी /प्रतिमूत लेनदार किसी तृतीय पक्ष के दावों / अधिकारों / बकाया राशियों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। यह ई—नीलामी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नीनर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम— 2002 के अन्तर्गत निर्घारित नियमों / शर्तों के अनुसार की जायेगी।

हैं—नीलामी के अन्य नियम व शर्ते निम्नलिखित वेबसाईटों पर प्रकाशित की गई है | 1. https://www.bankeauctions.com 2. http://www.sbi.co.in सरफासी ऐक्ट, 2002 के अधीन बिक्री हेतु कानूनी नोटिस

तिथि : 17.08.2020. स्थान : नई दिल्ली